



PIIL/SEC/BSE:NSE/ 85:2025-26
February 14, 2026

BSE Limited Corporate Relationship Department PJ Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No. 523642	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Code No. PIIND
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper Advertisement for the Unaudited Financial Results– December 31, 2025

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in the following newspapers with respect to Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025:

- **The Economic Times** (National daily newspaper - All India English Edition) on February 14, 2026
- **Dainik Bhaskar** (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on February 14, 2026
- **Rajasthan Patrika** (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on February 14, 2026

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **PI Industries Limited**

Shruti Joshi
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

Registered Office:

PI Industries Limited

Udaisagar Road, Udaipur – 313001, Rajasthan, India.

Tel.: 0294 6651100, 2492451 – 55 | CIN: L24211RJ1946PLC000469

✉ info@piind.com  www.piindustries.com

KLA, Tamil Nadu Govt Ink Pact for ₹3.6k-cr Chennai R&D Campus

Our Bureau

Chennai: Semiconductor process control and process-enabling technology player KLA Corporation on Friday said it had signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the government of Tamil Nadu to establish a new research & development (R&D) and innovation campus in Chennai. As part of the agreement, it intends to invest up to ₹3,600 crore over the next decade, KLA said.

ET was the first to report on Nov 3 that the American wafer fab equipment maker was in talks with the Tamil Nadu government to set up an R&D centre in the city.

"India has been a critical part of KLA's global growth story for over two decades," Dominic David, president, KLA India said in a statement. "This MoU continues our long-term vision to scale India as a global centre for AI and software-led semiconductor innovation. We expect the planned Chennai campus to extend our existing R&D capabilities, strengthen collaboration across global teams, and provide broader support to customers."

Planned on a 12-acre site, the campus is envisioned as one of KLA's largest innovation hubs, building on the company's existing operations in Chennai, with a potential capacity of up to 1.5 million sq feet over time.

The facility is designed to support advanced research and engineering and is expected to generate up to 4,000 jobs over 10 years.

"KLA's decision to establish their new R&D and innovation campus in Tamil Nadu reinforces the state's role in the global semiconductor value chain," the state's industries minister TRB Rajaa said.

Fidelity, Accel Lead \$160-170m Investment Round in Spinny

The latest financing round is the second such, at a similar size, for Spinny in less than a year

Pranav Mukul

New Delhi: Used-car sales firm Spinny has closed a \$160-170 million funding round led by US-based investors Fidelity and Accel Leaders Fund, people in the know said.

The transaction includes \$90 million of primary capital, with the remaining being sold by early investors Blume Ventures and Fundamentum. Other existing investors also participated in the round, said Spinny.

Fidelity and WestBridge Capital bought shares through the secondary portion, with the blended valuation of the company being \$1.41.5 billion, according to one of the persons cited earlier.

On Thursday, Fidelity's investment in Spinny received a nod from the Competition Commission of India (CCI). The US crossover fund has acquired around 6-7% stake in Spinny.

The Gurgaon-based company, which competes with SoftBank-backed Cars24 and Peak XV Partners-backed CarDekho, is on track to post a 30% revenue growth in fiscal 2026, another person said.

In FY25, Spinny reported Rs 4,746 crore in operating revenue, up 25% from FY24. In fiscal 2025, the company's net loss reduced by 28% to Rs 424 crore on the back of improved operating performance and better unit economics.

On the Move

Transaction includes \$90 m of primary capital with the remaining being sold by early investors Blume Ventures and Fundamentum

Fidelity, WestBridge

Capital bought shares through the secondary portion with the blended valuation of the co being \$1.4-1.5 b

In FY25, Spinny reported ₹4,746 cr in operating revenue, up 25% from FY24

Singh remained unanswered. Fidelity, Accel, WestBridge, Blume and Fundamentum did not respond to ET's queries.

The latest financing round is the second such of a similar size for Spinny in less than a year – after it closed an extended \$161-million funding from Accel Leaders Fund and WestBridge in June last year. That was not only the first big funding round since the go-go period of 2021 for Spinny, but also in the broader used-car sales and classifieds space.

Cars24 raised \$329 million in December 2021, led by Alpha Wave Global, valuing the company at \$3.3 billion. In January, Cars24 founder and CEO Vikram Chopra said the company is planning to go public in the next six to 12 months, as it reported an improvement in revenue growth in the first half of FY26.

Cars24 reported an adjusted net revenue of ₹651 crore for the April-September period, up 18% year-on-year, according to the company's H1FY26 performance update.

Tech Tonic: Infy Rolls Out 85% Average Q3 Bonus

Tech major's staff to get bonus with February salary

KR Balasubramanyam

Bengaluru: Infosys on Friday announced an average 85% organisation-wise performance bonus payout for the quarter ended December, lifting employee sentiments on a day the technology stocks took a heavy beating on the bourses on fears of artificial intelligence (AI) automating most IT tasks.

"This will hopefully build a positive momentum for the sector," an employee told ET. The higher payout comes on the back of a quarter of good business performance and deal wins.


The bonus will be paid along with the February salary, Infosys said in an email to employees.

A second employee told ET he got a 15% higher sum than the previous quarter, adding that some of his colleagues got as high as 100%.

At an individual level, employees have received between 75% and 100%, people briefed on the subject said. "This is not only the best so far in the financial year 2025-26, but better than any quarter in the last fiscal year," one of them said. Infosys did not respond to an email requesting details.

Chief human resources officer (CHRO) Shaji Mathew had informed employees at a town hall meeting last month that they may get a better variable pay (performance bonus) this time than before. Infosys has about 323,000 employees on its rolls. The software major had handed an average of 75% of their target bonus to eligible employees for the July-September quarter.

Sections of employees ET spoke to said they are hoping for similar



GOOD SHOW

Higher payout comes on the back of a quarter of good business performance and deal wins

good news on the pay raise from the company. Infosys released employee-wise ratings in December, after completing the appraisal for the period from November 2024 to October 2025.

Infosys, announcing its third quarter results in January, raised its revenue forecast as the management sounded bullish after what it called a strong performance, sensing a favourable tailwind.

Days ahead of the town hall meeting, several employees had sent in queries related to pay increases including when they can expect communication about it.

The software giant released salary revision letters to employees in February last year with a raise of between 5% and 8% to most of them depending on their performance rating, according to an ET report.

Ola Electric Q3 Revenue Down 55% to ₹470cr

Our Bureau

New Delhi: Electric two-wheeler manufacturer Ola Electric on Friday reported a 55% year-on-year drop in its operating revenue for the December quarter to ₹470 crore as its sales remained under pressure.

Its net loss narrowed 14% from a year earlier to ₹487 crore, though it widened from ₹418 crore in the previous quarter. "Q3 FY26 marks a structural reset for Ola Electric," the Bengaluru-based firm said in a statement. "As EV penetration growth has slowed and our service execution has required strengthening, we chose to realign our retail footprint, cost structure, and operating model to a sustainable steady state by fixing the fundamentals and not optimising for

GOING AHEAD

Company says it will reduce its operating expenses to ₹250-300 cr in a few quarters

short-term volume. The result is a structurally lower volume breakeven business with significantly improved operating leverage."

The company said it would reduce its operating expenses to ₹250-300 crore in a few quarters, down from ₹432 crore in the third quarter.

"Approximately 85-90% of our consolidated opex is fixed, with only 10-

15% variable. Beyond the breakeven threshold, incremental volumes translate into strong margin flow-through. With the current footprint, we can scale to 3-4X (our) current volumes with only incremental increases in fixed costs, unlocking significant operating leverage as demand recovers," Ola Electric said in a letter to shareholders.

The revenue and sales came in lower than analyst estimates. Brokerage Kotak Institutional Equities had expected its revenue to drop 54% on-year to ₹480 crore due to a 58% decline in volumes.

Kotak had estimated a 4% increase in the average selling price (ASP) due to higher accruals from the government's production-linked incentive (PLI) scheme and higher share of motorcycles in the product mix.

The company reported a 15% year-on-year (YoY) increase in its ASP. Its EV deliveries, however, dropped 61% YoY to 32,680 units in the December quarter. Ola Electric has been seeing a steady fall in its market share.

Its listed new-age rival Ather Energy reported a 50% YoY rise in operating revenue for the December to ₹564 crore, its highest-ever quarterly operating revenue, aided by strong festive demand and higher sales.

Ather Energy also brought down its net loss to Rs 85 crore, down 57% from a year earlier.

Ola Electric's shares touched an all-time low of Rs 30.41 on Friday and closed 0.3% down at Rs 30.90 on the BSE. In the last one month, its share price has fallen more than 20%.

FirstCry Q3 Net Loss Widens to ₹38 crore, Revenue up 11.6%

Our Bureau

Bengaluru: The parent company of mother and baby care products retailer FirstCry Brainbees Solutions' net loss shot up to ₹38 crore in Q3 of FY26 from ₹14.7 crore reported a year ago for the same period.

Meanwhile, it clocked an 11.6% year-on-year (YoY) increase in operating revenue to ₹2,423 crore in the December quarter, from ₹2,172 crore reported a year earlier.

However, the company's results looked better on a quarterly basis, despite relatively muted consumer sentiment. Its net loss narrowed down by 24% from ₹50.5 crore reported in Q2 FY26. Similarly, December quarter's operating revenue rose by 15% from ₹2,099 crore reported in the previous quarter.

FirstCry's India multi-channel and international business together posted a GMV (gross merchandise value) of



₹3,424 crore sales in the third quarter, a 10% YoY growth. GMV refers to the monetary value of total orders sold by marketplaces or brands during a given period of time.

Meanwhile, the company's rapid delivery service, Rock-etbees, was expanded to 22 cities in the third quarter from 13 cities. In the quick delivery segment, Firstcry is experiencing competition from traditional quick commerce

companies as well as new start ups like Blume Ventures-backed Ozi and Stellaris-backed Peeko.

"There is a quick commerce frenzy and companies are just riding on that bandwagon. Currently, these companies are operating out of single dark stores in NCR or Bengaluru. This is a game of unit economics amid competition," said Supam Maheshwari, chief executive, FirstCry, in the analyst call.

"So, our assessment is that it's very hard to replicate what has been built by old players by the new players in the quick commerce baby and kids space," he added.

Backed by SoftBank and Premji Invest, FirstCry offers a wide portfolio of products across apparel, footwear, baby care, nursery items, diapers, toys, and personal care.

Its offerings include both its own brands as well as domestic and international third-party labels.

Info Edge Q3 Net Profit Jumps 10% to ₹317 crore

Naukri parent's revenue rises 13% to ₹819 crore

Our Bureau

New Delhi: Info Edge, the parent company of the recruitment site Naukri, reported that its operating revenue for the quarter ended December 31 had increased 13% to ₹819 crore, driven by growth in its recruitment and non-recruitment businesses.

The company's net profit for the quarter rose 10% to ₹317 crore, from ₹288 crore a year earlier. Revenue from the recruitment solutions business, which includes Naukri.com, grew 12% year-on-year (YoY) to ₹591 crore. The real estate listing portal 99acres also posted a 14% increase in revenues, at ₹118 crore, while other businesses, including Jeevansathi.com and Shiksha.com, grew nearly 20% to ₹109 crore.

"The hiring environment remains uncertain, as evident from our Jobspeak index. Despite this, the business delivered close to 10% year-on-year growth in billings in Q3, similar to the growth seen in Q2. Billing for the technology, IT, and BPM segments combined grew 14% year-on-year, GCCs grew 13%, recruitment consultancy grew 5%, and all the other sectors combined grew 2%," the company's managing director and chief executive Hitesh Oberoi told analysts during a post-earnings call.

Billing for the non-recruitment portfolio grew 14.1%.


The Noida-based company's total expenses

during the quarter increased to ₹562 crore from ₹487 crore a year earlier. A significant portion of this was attributed to employee benefit expenses amounting to ₹342 crore, followed by advertising and promotion costs of ₹99 crore, and other expenses of ₹61 crore.

According to Oberoi, the jobs site, which operates primarily on a freemium model and is focused on select markets, maintains strong platform metrics and continues to grow revenues. "The secondary (re-sale) business performed well in real estate while the primary segment (sale of new properties) remained relatively slower. We continue to see a higher share of new listings across categories, including residential, resale, and rental, as well as commercial, spanning both the owner and broker segments," he said.

On the matchmaking segment, Oberoi said that the market continues to be competitive with other players investing in marketing and offering higher than usual discounts. "The domestic Shiksha business continued to grow in billings, whereas the study abroad business witnessed softness in Q3. The AI-related impact is now very visible in the domestic Shiksha business and has led to a sharp drop in traffic," he added, while referring to the education vertical.

Info Edge shares closed 0.30% lower at Rs 1,143.75 on the BSE on Friday.



Reimagining a Healthier Planet

PI Industries Limited

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2025

(In ₹ Million)

PARTICULARS	CONSOLIDATED					
	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	14,424	19,548	19,767	53,836	64,615	83,220
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)	3,027	5,434	5,122	13,680	17,264	21,833
Profit before exceptional items and tax (PBT)	2,578	5,253	4,807	12,905	17,098	21,420
Exceptional items gain/(loss)	1,051	-	-	1,051	-	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	3,629	5,253	4,807	13,956	17,098	21,420
Profit after tax (PAT)	3,113	4,093	3,727	11,206	13,297	16,602
Total Comprehensive Income	3,191	3,783	3,178	11,408	12,715	16,497
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 1/- each)	152	152	152	152	152	152
Total Reserves as at year ended March 31, 2025						1,01,418
Earning Per Share*						
Basic (₹)	20.52	26.98	24.55	73.87	87.65	109.44
Diluted (₹)	20.52	26.98	24.55	73.86	87.64	109.42

PARTICULARS	STANDALONE					
	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
Total Income from Operations	13,459	18,329	18,526	50,279	61,554	78,718
Profit before exceptional items and tax (PBT)	3,655	6,146	5,483	15,616	18,899	23,957
Exceptional items gain/(loss)	(206)	-	-	(206)	-	-
Profit after exceptional items and before tax (PBT)	3,449	6,146	5,483	15,410	18,899	23,957
Profit after tax (PAT)	2,816	4,911	4,238	12,370	14,807	18,665

* Actual for the quarter and nine months, not annualised.

Note

1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com), the Company's website (www.piindustries.com) and can also be accessed by scanning QR code provided below.

2. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Company and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 12, 2026.

3. The Board of Directors at their meeting held on February 12, 2026 have approved the interim dividend of ₹ 5.00 per equity share of face value of ₹ 1.00 each for the financial year 2025-26.

Place : Gurugram
Date : February 12, 2026
Regd. Office : Udaisar Road, Udaipur - 313001 (Rajasthan)
Phone : 0294 6651100 2492451-55
CIN : L2421RJ946PLC000469

For PI Industries Limited
Sd/-
Narayan K Seshadri
Chairperson, Board of Directors
DIN : 00053563

कोर्ट से राहत के बावजूद 54 सदस्यों पर घमासान, नई कार्यकारिणी बनने तक पुरानी ही संभालेगी काम, बड़े फैसलों पर रोक विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक में 4 घंटे हंगामा, चुनाव टले, तब जाकर शांति

उदयपुर | भूपाल नोबल्स (बीएन) यूनिवर्सिटी में विद्या प्रचारिणी सभा की वार्षिक बैठक में शुक्रवार को प्रस्तावित चुनाव कराने को लेकर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक हंगामा हुआ। चुनाव स्थगित कराने की मांग को लेकर नाराज सदस्य मंच पर चढ़ गए। विवि परिसर में गहमागहमी बनी रहती।

जब तक चुनाव नहीं कराने की घोषणा नहीं हुई, सदस्य मंच पर धरने पर बैठे रहे। मुख्य विवाद 54 नए सदस्यों को लेकर है। इन्हें पिछले साल आमसभा में कथित रूप से

जोड़ लिया था। इन्हें संस्था की गतिविधियों, मतदान और कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकने के लिए शुक्रवार को हंगामा हुआ। हालांकि, इन 54 सदस्यों को अवैधानिक बताने की याचिका को उदयपुर कोर्ट ने गुरुवार को ही खारिज कर दिया। विवाद के बीच सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत सहित अन्य पदाधिकारियों ने सदस्यों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार मामला सभा के चीफ पैटर्न, अध्यक्ष और नाथद्वारा

विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ तक पहुंचा। वे फिलहाल जयपुर में विधानसभा सत्र में हैं। उन्होंने चुनाव स्थगित करने के आदेश दिए। तब जाकर मामला शांत हुआ। चीफ पैटर्न ने आदेश जारी किए हैं कि कार्यकारिणी के अगले चुनाव तक मौजूदा कार्यकारिणी काम करती रहेगी। हालांकि इसे बड़े निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। चीफ पैटर्न, डॉ. युवराज सिंह झाला, कलवंत सिंह शिशवी और नरेंद्र सिंह को कार्यकारिणी से अटैच करते हुए साथ काम करने के आदेश दिए हैं।

48 रिक्त पदों की जगह 54 नए सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद

मुख्य विवाद 54 नए सदस्यों को लेकर है। इसे लेकर एक दिन पहले गुरुवार को उदयपुर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। दरअसल अपीलकर्ताओं की मांग थी कि 24 फरवरी 2025 की आमसभा में कथित रूप से 54 नए सदस्यों को जोड़ लिया जा। इन्हें संस्था की गतिविधियों, मतदान और कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकना जाए।

अपील में ये भी आरोप लगाया था कि संस्था में 48 रिक्त पदों के स्थान पर 54 व्यक्तियों को सदस्य घोषित कर दिया। जबकि कार्यकारिणी की विधिवत अनुशंसा नहीं हुई थी। जबकि दूसरी ओर संस्था ने दलील दी थी कि सदस्यता प्रक्रिया संविधान के अनुरूप पूरी की गई। नाम एनुअल रिपोर्ट में प्रकाशित हो चुके हैं। कोर्ट ने मामले में अध्यक्ष एवं प्रधान संरक्षक को संस्था संविधान के अनुरूप आवश्यक निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। वहीं माहौल गर्मात देख डीएसपी सूर्यवंत सिंह और भूपालपुर थानाधिकारी आदर्श कुमार जाबते के साथ पहुंचे। इन्होंने मामला शांत कराने का प्रयास किया।

ग्राम मामादेव को पंचायत घोषित नहीं करने पर ग्रामीणों में रोष, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी



ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में प्रशासन ने पक्ष में रिपोर्ट भेजी थी।

उदयपुर | ग्राम मामादेव को पंचायत घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी होने के बावजूद क्रियान्वयन नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में प्रशासन ने पक्ष में रिपोर्ट भेजी थी, फिर भी निर्णय लंबित है। पूर्व उप

सरपंच ईश्वर दास वैष्णव, समाजसेवी कैलाश मीणा, मोनी मीणा, वार्ड पंच नानी मीणा, पूर्व वार्ड पंच शंकर लाल मीणा सहित अन्य ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा।

भास्कर ग्रांड रिपोर्ट

3 माह में वनकर्मियों पर 3 हमले, मीटिंगों में बुलाकर धमकियां दीं, संविधान नहीं मानने के दावे

गुजरात के सीमा क्षेत्र में कानून से इनकार की मुहिम, फुलवारी की नाल में सक्रिय संगठन पर गंभीर सवाल

सिटीरिपोर्टर | उदयपुर

शहर से 100 किलोमीटर दूर फुलवारी की नाल सैन्चुरी और इससे लगे गुजरात बॉर्डर क्षेत्र में एक ऐसे संगठन की सक्रियता के आरोप सामने आ रहे हैं, जो कथित रूप से देश के कानून और संविधान को नहीं मानता। पिछले तीन महीनों में वन विभाग और पुलिस टीमों पर हुए हमलों के पीछे इसी संगठन की भूमिका की आशंका जताई जा रही है।

दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले से जुड़ा 'एंटी क्राइस्ट (सी) भारत सरकार' नामक संगठन एसोसिएटिड अदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है। आरोप है कि यह संगठन स्थानीय लोगों को यह कहकर भड़का रहा है कि उन पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। नाम नहीं छापने की शर्त पर वनकर्मियों ने बताया कि सैन्चुरी में पेड़ों का अवैध कटान रोकने की हर कोशिश के बाद सुनियोजित

तरीके से हमला किया जा रहा है। घने जंगल और बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण हमलावर आसानी से फरार हो जाते हैं। हमले में घायल एक वनकर्मी ने बताया कि संगठन से जुड़े लोगों ने दो बार मीटिंग में बुलाकर वनकर्मियों को चेतावनी दी थी। इन मीटिंगों में सरकार के नियम नहीं मानने और अलग व्यवस्था की बात कही गई। इन बैठकों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल बताए जा रहे हैं।

हालांकि भास्कर इनकी पुष्टि नहीं करता। वनकर्मियों के मुताबिक बाहरी लोग गुजरात की ओर से आकर स्थानीय आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। हमलों में भी स्थानीय लोगों को आगे कर दिया जाता है। इस बीच लगातार एक जैसे पैटर्न में हो रहे हमले क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनकी कड़ियां उदयपुर और बनारसकांडा के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ती नजर आ रही हैं।

महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली से जुड़ा 'एंटी क्राइस्ट भारत सरकार' नामक संगठन सक्रिय

19 नवंबर, 2025 : अंबासा क्षेत्र की कोदड़ की नाल में करीब 1.5 हेक्टेयर जंगल में अवैध कटान। कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला करने की कोशिश। कुछ लोगों को डिटोन किया गया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं।

5 फरवरी, 2026 : अवैध कटान रोकने गई टीम पर करीब 20 लोगों का हमला। वनपाल प्रकाश चंद्र गमार गंभीर रूप से घायल, रेंजर से बदसलूकी।

12 फरवरी, 2026 : कोदड़ की नाल में तैर-कुलू झाड़ियों से लैस लोगों का हमला। रेंजर राजेश परमार और कांस्टेबल रामकृष्ण घायल। दो गार्ड कुछ समय के लिए लापता रहे।



हमलावरों की कड़ियां उदयपुर व बनारसकांडा के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ती नजर आ रही।

गुजरात में भी हिंसक वारदात, 47 अधिकारी-कर्मचारी घायल हुए

13 दिसंबर, 2025 : गुजरात के बनारसकांडा जिले के दांता तालुका के पाडलिया गांव में पीछोरोपण के लिए पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम पर करीब 500 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। 47 अधिकारी-कर्मचारी घायल हुए और वाहनों में आग लगा दी गई। फुलवारी की नाल सैन्चुरी में लगातार बढ़ती हिंसा और कथित संगठन की सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के लिए यह सिर्फ वन संरक्षण का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था की चुनौती बनता जा रहा है।

तैयारी : आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

आरएनटी के अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 177 नए पद भरेंगे, मजबूत होगा दवा का वितरण

हेल्थरिपोर्टर | उदयपुर

आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में फार्मासिस्टों की कमी दूर करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। फार्मासिस्ट संघों के नए पद सुनिश्चित करने और रिक्रूटमेंट भरने के संबंध में एक विस्तृत समेकित प्रस्ताव चिकित्सा जयपुर स्थित शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है। इसमें 177 नए पदों की मांग की गई है।

कॉलेज प्रशासन के अनुसार अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या और दवा वितरण के बढ़ते दबाव के कारण वर्तमान स्वीकृत पद अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। अतिरिक्त

प्रधानाचार्य के भेजे इस प्रस्ताव में उक्त नए पदों के सृजन से सरकार पर लगभग 1205.98 लाख यानी करीब 12 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार बताया गया है। इसमें फार्मासिस्ट (एल-10), फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम (एल-11) और फार्मासिस्ट अधीक्षक (एल-12) के पद शामिल हैं। प्रस्ताव को संशोधित रूप में निदेशालय को भेजा गया है।

कॉलेज प्रशासन का मानना है कि स्वीकृति मिलने के बाद सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराने में सुधार आएगा।

सबसे ज्यादा 96 पद एमबी में

अस्पताल	पद	वित्तीय भार
एमबी	96 (एल-10, एल-11 एवं एल-12)	672.72
सुपरस्पेशियलिटी	34	239.28
सेरेलाइट, हि.म.	15	105.84
पद्माधाय महिला चिकित्सालय,	13	92.16
जिला चिकित्सालय,	8	57.24
वांदपोल		
आरएनटी कॉलेज	6	45.72
क्षय रोग संस्थान,	5	33.96
वडी		

-स्रोत आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वित्तीय भार लाख में।

दुकानों पर जबरन कब्जे का प्रयास

क्राइमरिपोर्टर | उदयपुर

गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक युवक ने बदमाशों के साथ मिलकर दुकानों पर कब्जा करने के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार पंकज पुत्र स्व. मनोहरलाल सरूपारिया निवासी माडला मंगरा सेक्टर-11 ने विनोद जैन पुत्र सरस निवासी सर्वरुद्र विलास, गुलाबबाग रोड व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी है।

रिपोर्ट में बताया कि दक्षिण विस्तार कृषि मंडी रोड स्थित उसके प्लॉट पर बनी दुकानों पर 16 जनवरी शाम करीब 4 बजे आरोपी कुछ लोगों के साथ पहुंचा

और जबरन कब्जा करने लगा। विरोध करने पर गाली-गालीज व मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए लोगों को भी धमकाया गया। आरोप है कि 20 जनवरी को आरोपियों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर दुकानों के ताले तोड़ दिए और कैमिकल के ड्रम व अन्य सामान रखने का प्रयास किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार दुकान में सामान डालकर कब्जे की कोशिश कर रहा है तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसके आदेश पर मामला दर्ज किया गया।

भाजपा महिला मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित, बजट पर चर्चा केंद्र ने योजनाओं में महिलाओं को तरजीह दी, घर-घर जाकर बताएं फायदे : डॉ. गुर्जर

उदयपुर | भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला की ओर से उडन हॉल स्थित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बजट विषय पर जिला स्तरीय महिला सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका गुर्जर और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने की। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अलका मुंदड़ा, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, पिंकी मांडावत, कविता जोशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने बजट की सरहना करते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और दो वर्षों में पूर्व सरकार से अधिक कार्य हुए हैं। डॉ. गुर्जर ने महिलाओं के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया।



जिला स्तरीय महिला सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित हुआ। 15 नए सदस्यता ली।

पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। अंत में 15 महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की।

मीडिया प्रभारी डॉ. चंपावत ने कहा कि सम्मेलन में पूर्व विधायक वंदना मीणा, पूर्व महारण राजनी डांगी, प्रतिभा नागदा, देवीलाल सालवी, फंकज बोराणा, हंसा माली, खुशाबू मालवीय, विजयलक्ष्मी कुमवत, सुषमा कुमवत, मणि बेन पटेल,

मंजु शर्मा, संतोष मेनारिया, सुशीला मोडावत मौजूद रहे। महिला मोर्चा के गोपाल कंवर, मीनू कुंवर चौहान, सीमा खटीक, मांगी बाई डांगी, संतोष भटनागर, संजु सुथार, सुमन लूनिया, ममता शर्मा, सुरेश सिंह सहित कई कार्यकर्ता और शहर के विभिन्न संगठन और संस्थाओं की महिलाएं मौजूद थीं। संचालन डॉ. सीमा चंपावत व किरण तातेड़ ने किया, आभार डॉ. सोनिका जैन ने जताया।

Reimagining a Healthier Planet

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल और समेकित अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

विवरण	समेकित					
	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष	
	31.12.2025 अन-अंकेक्षित	30.09.2025 अन-अंकेक्षित	31.12.2024 अन-अंकेक्षित	31.12.2025 अन-अंकेक्षित	31.12.2024 अन-अंकेक्षित	31.03.2025 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय	14,424	19,548	19,767	53,836	64,615	83,220
ईबीआईडीडी (व्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की कमाई)	3,027	5,434	5,122	13,680	17,264	21,833
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2,578	5,253	4,807	12,905	17,098	21,420
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	1,051	—	—	1,051	—	—
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	3,629	5,253	4,807	13,956	17,098	21,420
कर के पश्चात् लाभ (PAT)	3,113	4,093	3,727	11,206	13,297	16,602
कुल व्यापक आय	3,191	3,783	3,178	11,408	12,715	16,497
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1/- का अंकित मूल्य)	152	152	152	152	152	152
समाप्त वर्ष के अनुसार कुल भंडार						
31 मार्च, 2025						
प्रति शेयर आय*						
मूलभूत (₹)	20.52	26.98	24.55	73.87	87.65	109.44
मिश्रित (₹)	20.52	26.98	24.55	73.86	87.64	109.42

विवरण	एकल				
परिचालनों से कुल आय	13,459	18,329	18,526	50,279	61,554
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	3,655	6,146	5,483	15,616	18,899
असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि)	(206)	—	—	(206)	—
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी)	3,449	6,146	5,483	15,410	18,899
कर के पश्चात् लाभ (PAT)	2,816	4,911	4,238	12,370	14,807

*तिमाही और नौ माह के लिए वास्तविक, वार्षिकीकृत नहीं

टिप्पणियाँ :

- उपरोक्त दिसम्बर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल और समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जो सही के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.piindustries.com) पर उपलब्ध है और नीचे दिये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे देखा जा सकता है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई और फरवरी 12, 2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- निदेशक मण्डल ने फरवरी 12, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.00 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹5.00 के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दे दी है।

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: फरवरी 12, 2026

पंजीकृत कार्यालय: उदयसागर रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)

फोन: 0294 6651100 2492451-55

सीआईएन: L24211RJ1946PLC000469

कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता /—

नारायण के सेबाद्रि

अध्यक्ष, निदेशक मंडल

डीआईएन: 00053563

पत्रिका गाइड

काम की जानकारी

पहली बार भूखंड या जमीन खरीद रहे हैं ये जरूरी बातें जानें

जमीन खरीदना बड़ा निवेश है। थोड़ी सी लापरवाही परेशानी बन सकती है। पहली बार खरीदने वाले पूरी गाइड को जरूर जानें।

- इसका ध्यान रखें
- टाइटल क्लियर हो, पिछले मालिकाना रिकॉर्ड जांचें

■ एन्कम्बेंस सर्टिफिकेट लें

■ जमीन का प्रकार कृषि/ आवासीय/ कर्मांशियल स्पष्ट करे

■ एग्रीमेंट की शर्तें, लेआउट व प्रोजेक्ट की रेरा में स्थिति जांचें, जैसे राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण।

■ आम गलतियां

■ बिना दस्तावेज जांचे टोकन देना

■ सिर्फ़ ब्रोकर पर भरोसा करना

■ रजिस्ट्री से पहले पूरी रकम देना
- **एक्सपर्ट सलाह**

रियल एस्टेट वकील से दस्तावेज जांचवाएं, पूरी पेमेंट बैंक माध्यम से करें।

रजिस्टर्ड सेल डीड ही अंतिम प्रमाण है। इसे जरूर करवाएं।

राव रतन सिंह

वरिष्ठ अधिवक्ता
- अगली गाइड

किस पर चाहिए?

जमीन, लोन या रेंट...**हमें बताएं**

✉ मेल पर

patrika@in.patrika.com

📞 वॉट्सएप पर

9672992535
- श्रोता संघ की गोष्ठी**

उदयपुर. राजस्थान रेडियो श्रोता संघ ने गुरु गोविंद सिंह पार्क में विश्व रेडियो दिवस पर गोष्ठी की। सचिव जख्खार मोहम्मद ने रेडियो को शिक्षा, कृषि और विज्ञान की जानकारी का सशक्त माध्यम बताया। अध्यक्षता नजीब खान ने की। अनेक श्रोताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।
- आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा
- उदयपुर@पत्रिका. राजकीय मीरा कन्या कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में तीन दिवसीय कोशल विकास कार्यक्रम हुआ। उद्घाटन सत्र में प्राचार्य प्रो. श्याम सुंदर कुमावत ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। प्रभारी प्रो. मनीषा चौबीसा ने कोशल आधारित रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रथम दिवस पर ब्यूटीशियन वर्कशॉप यौनिक ने नेल आर्ट एवं हेयर स्टाइलिंग का प्रशिक्षण दिया। अंतिम दिन रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के आत्मरक्षा शिविर का समापन हुआ।

निशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर

उदयपुर@पत्रिका. भारत विकास परिषद पंडिनी शाखा की ओर से राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिगंबर जैन बालिका विद्यालय खरादीवाड़ा में निशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया। अध्यक्षता अच्युत झा, दिव्या पामेचा ने बताया कि बालिकाओं में बढ़ती स्मनस्थ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिविर लगाया गया। एसजी नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से जांच की गई। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया ने इसे उपयोगी पहल बताया। शिविर में पूर्व पार्षद विद्या भावसार, डॉ. प्रियंका जैन, विनिता जैन, कविता, मीनाक्षी जैन आदि उपस्थित रहे।
- राइट टू हेल्थ पर यू-टर्न जनविरोधी
- उदयपुर@पत्रिका. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने राइट टू हेल्थ पर राज्य सरकार के निर्णय को जनविरोधी बताया। गरीब और मध्यम वर्ग मर्गे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में योजना को कमजोर करना जनता के अधिकारों पर प्रहार है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह संघर्ष करेगी।
- विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह
-
- उदयपुर@पत्रिका. सीडलिंग द वर्ल्ड स्कूल ने वार्षिक खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया। कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, रिले रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अध्यक्ष हर्दीप बख्शी एवं प्रमुख निदेशिका मोनिटा बख्शी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समापन पर विजेताओं को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयोजन ने विद्यार्थियों में खेल भावना और टीमवर्क को सुदृढ़ किया।
- उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम
- उदयपुर@पत्रिका. लघु उद्योग भारती की अहल्याबाई होलकर इकाई की ओर से उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगारसे जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया। अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष ऋषिका पानेरी ने की। मुख्य अतिथि शैलेंद्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रतिनिधि सिद्धार्थ महाजन एवं मोहित देशपांडे सहित कृष्णा पारिख रहे। अध्यक्ष ऋषिका पानेरी ने कलास्वरोजगार ही सशक्त भारत की आधारशिला है।
- दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक
- उदयपुर@पत्रिका. पूर्व सांसद बृंदा करात एवं त्रिपुरा विस के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी 15, 16 फरवरी को गुजराती समाज धर्मशाला में आयोजित आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच की बैठक में भाग लेंगे। राज्य सचिव विमल भागोय ने बताया, बैठक में आदिवासी मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। 16 फरवरी को डबल इंजन की सरकार व आदिवासियों को स्थिर विषय पर समीनार भी आयोजित होगा।
- जयपुर मुख्यालय पर इओआइ में 9 डेवलपर्स ने दिए प्रपोजल
- उदयपुर समेत 8 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल से होगा पुनर्विकास, दिए सुझाव
-
- बेहतर सुविधाओं की उम्मीद
- विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना से बस स्टैंडों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और
- शहरों में परिवहन ढांचा मजबूत होगा। पीपीपी मॉडल से निजी निवेश आने से विकास कार्य तेजी से होने की संभावना जताई जा रही है।
- विकास की अनुमानित राशि तय की
- रोडवेज प्रबंधन की ओर से तय किए गए बस स्टैंड्स पर पीपीपी मॉडल से विकास कार्य होंगे। विकास कार्य रोडवेज प्रबंधन की सहमति से किए जाएंगे। इन विकास कार्यों में बस स्टैंड से बसों के आगमन की सुविधा के साथ ही स्टाफ के कार्यालय का विकास भी होगा। इसके अलावा फर्म व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग कर सकेगी।
- सप्ताह तक सरकार को भेजा जाएगा। वहां से निर्णय होने के बाद बस स्टैंड
- को पीपीपी मॉड पर विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
- ऐसे होगा विकास
- जानकारी के अनुसार, पीपीपी मॉड पर बस स्टैंड विकास में ग्राउंड फ्लोर का उपयोग बसों के संचालन और फर्स्ट फ्लोर का उपयोग कार्यालय के लिए किया जाएगा। साथ ही अन्य फ्लोर का उपयोग होटल, मॉल, कार्यालय, दुकानों आदि के लिए हो सकेगा।
- किस शहर में कितनी जगह
- योजना में शामिल शहरों में उदयपुर 16,788 वर्गमीटर, वित्तोडगढ़ 15,124, बीकानेर 40 हजार, भरतपुर 30,917, भीलवाड़ा 28,198, ब्यावर 24,404, अजमेर 24,767 और बूंदी 20,982 वर्गमीटर शामिल हैं। इस भूमि पर पीपीपी मॉड पर स्टैंडों को आधुनिक यात्री सुविधाओं, व्यावसायिक परिसर, पार्किंग, डिजिटल सेवाओं व बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ विकसित किया जाएगा। पुनर्विकास में अनुमत बिल्डिंग एरिया रेशियो (बीएआर) 2 रखा गया है।
- राज्यसभा में सांसद गरासिया ने सदन में उठाए अहम मुद्दे
- उदयपुर@पत्रिका. राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के गुरुवार को राज्यसभा में पड़े गए विभिन्न अतारंकित प्रश्नों के जवाब में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन, न्यायालयों के डिजिटलीकरण, स्मारकों के संरक्षण और देश में 5जी सेवाओं के विस्तार से जुड़ी प्रगति का ब्यौरा सदन में दिया। पर्यावरण से जुड़े प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष कार्ययोजनाएं लागू हैं। वर्ष 2023 से 2025 के बीच कई शहरों में गंभीर वायु गुणवत्ता दर्ज होने के बावजूद 103 शहरों में पीएम10 स्तर में कमी आई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि ई-कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण के तहत देशभर में न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने का कार्य जारी है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में देशभर में 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, इनका संरक्षण और अनुरक्षण राष्ट्रीय संरक्षण नीति के तहत किया जाता है। वहीं दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े प्रश्न पर बताया कि देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में 5जी सेवाएं पहुंच चुकी हैं और लाखों बेस स्टॉनसिंवर स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- नस्ल सुधार की डिजिटल पहल, 5000 बकरियों का जेनेटिक डेटा तैयार
-
- उदयपुर@पत्रिका. पशुपालन में भी अब तकनीक के इस्तेमाल से कई नवाचार किए जा रहे हैं। उदयपुर में 5,000 से अधिक बकरियों का जेनेटिक डेटा तैयार किया गया है। इसके आधार पर दूध उत्पादन, वजन, वृद्धि दर एवं प्रजनन क्षमता जैसे मानकों पर जेनेटिक मूल्यांकन किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक से बकरी नस्ल सुधार की नई पहल में निबकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फलटन (महाराष्ट्र) और न्यूज़ीलैंड की एनिमल जेनेटिक्स कंपनी अबेक्स बायो का तकनीकी सहयोग मिला।
- कार्यशाला में साझा किया तकनीकी मॉडल बकरी पालन को व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला नेतृत्व आधारित बकरी प्रजनन कार्यक्रम विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से की गई इस पहल में निबकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फलटन (महाराष्ट्र) और न्यूज़ीलैंड की एनिमल जेनेटिक्स कंपनी अबेक्स बायो का तकनीकी सहयोग मिला।
- कार्यशाला में डॉ. चंद्रा निबकर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसियर की जानकारी दी। पीटर एम्पर ने एलीकेशन के उपयोग के बारे में बताया। इस दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेश जैन, डॉ. नागदा, डॉ. प्रफुल्ल भटनगर सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चार राज्यों से 14 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में प्रतिभागियों को सायरा ब्लॉक के गांवों का फील्ड विजिट कराया गया
- TENDER NOTICE**

Sealed tenders are invited from competent and eligible parties for the period 01.04.2026 to 31.03.2027 for the following categories:
Food Items- Fresh vegetables, Imported Vegetables, Fruits (Indian & Imported), Panier, Mawa, Cream, Butter, Sweets and Namkeens, Grocery (kirana) items, Whole and Powder Spices, Dry Fruits, Asda, Maida, Tin and Bottled Spices, Frozen products (Green Peas, French Fries), eggs, etc.Vendors must be registered with FSSAI. A copy of the valid registration certificate is mandatory.
Rental Services-Travel desk operations, Valid registration license to operate is required.
Service Contracts-Kitchen equipment maintenance, manpower supply, security services, garbage disposal, scrap collection, etc.
Other Supplies & Services- Charcoal, firewood, disposable paper products, printing material, stationery, DJ sound services, etc.
Interested parties may collect the tender form from the Purchase Department on any working day between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. on payment of Rs. 1,500/- on or before 23.02.2026. The last date for submission of the tenders is 28.02.2026.

THE FERN RESIDENCY
(A Unit of Rajasthan Machinery Mart Pvt.Ltd.)
Plot No-1 Madhu Nursery Compound
Hiran Magri Sector-3, Udaipur.
Ph. 0294-2569000, Mob: 7340010966, 7340010977
- # Reimagining a Healthier Planet

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल और समेकित अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

(₹ मिलियन में)
- | विवरण | समेकित | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | समाप्त तिमाही | | समाप्त नौ माह | | समाप्त वर्ष | | |
| | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | |
| | अन-अंकेक्षित | अन-अंकेक्षित | अन-अंकेक्षित | अन-अंकेक्षित | अन-अंकेक्षित | अंकेक्षित | |
| परिचालनों से कुल आय | 14,424 | 19,548 | 19,767 | 53,836 | 64,615 | 83,220 | |
| ईबीआइटीडीई (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की कमाई) | 3,027 | 5,434 | 5,122 | 13,680 | 17,264 | 21,833 | |
| असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (पीबीटी) | 2,578 | 5,253 | 4,807 | 12,905 | 17,098 | 21,420 | |
| असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि) | 1,051 | — | — | 1,051 | — | — | |
| असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी) | 3,629 | 5,253 | 4,807 | 13,956 | 17,098 | 21,420 | |
| कर के पश्चात् लाभ (PAT) | 3,113 | 4,093 | 3,727 | 11,206 | 13,297 | 16,602 | |
| कुल व्यापक आय | 3,191 | 3,783 | 3,178 | 11,408 | 12,715 | 16,497 | |
| प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1/- का अंकित मूल्य) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| समाप्त वर्ष के अनुसार कुल भंडार | 101,418 | | | | | | |
| 31 मार्च, 2025 | | | | | | | |
| प्रति शेयर आय* | मूलभूत (₹) | 20.52 | 26.98 | 24.55 | 73.87 | 87.65 | 109.44 |
| | मिश्रित (₹) | 20.52 | 26.98 | 24.55 | 73.86 | 87.64 | 109.42 |
| विवरण | एकल | | | | | | |
| परिचालनों से कुल आय | 13,459 | 18,329 | 18,526 | 50,279 | 61,554 | 78,718 | |
| असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (पीबीटी) | 3,655 | 6,146 | 5,483 | 15,616 | 18,899 | 23,957 | |
| असाधारण वस्तुएँ लाभ/(हानि) | (206) | — | — | (206) | — | — | |
| असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (पीबीटी) | 3,449 | 6,146 | 5,483 | 15,410 | 18,899 | 23,957 | |
| कर के पश्चात् लाभ (PAT) | 2,816 | 4,911 | 4,238 | 12,370 | 14,807 | 18,665 | |
- *तिमाही और नौ माह के लिए वास्तविक, वार्षिकीकृत नहीं टिप्पणियां :
1. उपरोक्त दिसम्बर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल और समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है, जो कंपनी के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की बैसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की बैसाइट (www.piindustries.com) पर उपलब्ध है और नीचे दिये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे देखा जा सकता है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई और फरवरी 12, 2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
3. निदेशक मण्डल ने फरवरी 12, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹1.00 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹5.00 के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दे दी है।
-
- कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/—
नारायण के सेंधाद्रि
अध्यक्ष, निदेशक मंडल
डीआईएन: 00053563
- रामन अनुसंधान संस्थान**

सदाशिवनगर, बेंगलूरु - 560 080.

निदेशक की नियुक्ति के लिए

आवेदन/नामांकन हेतु आह्वान

विज्ञापन संख्या 05/2026 दिनांक 14.02.2026

आरआरआई भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविदों/शोधकर्ताओं से, जो भारतीय नागरिक हों, निदेशक पद हेतु आवेदन/नामांकन आमंत्रित करता है। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा संस्थान पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे। वे संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रारंगिकता वाले अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं की पहचान करने में उच्च-स्तरीय नेतृत्व प्रदान करेंगे।

वर्तमान पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी, जिसमें भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अधिकतम पांच वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर अत्यकालिक अनुबंध / पुनर्नियुक्ति शामिल है। अधिवर्षिका की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। आवेदक / नामांकित व्यक्ति की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि 01 जनवरी 2026 है। यह पद भारत सरकार के संशोधित वेतन नियम, 2016 के अनुसार वेतन स्तर 17 के उच्चतम पैमाने, अर्थात् ₹2,25,000/- प्रति माह का वहन करता है।

आवेदन/नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 है। विस्तृत विज्ञापन <https://www.rrri.res.in/careers/regular-other-openings> पर देखा जा सकता है।
- कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक :- शिविता / प्रार/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2026-27 दिनांक 13.02.2026

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2026-27 हेतु निशुल्क प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना

शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में एनटी कक्षा-पीपी3+ , पीपी4+ , पीपी5+ तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैटेगरी एरिया में निवास करने वाले बालकों को निशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2026 को जारी कर दिये हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के ग्राइडेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.pnc.in एवं विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/elemen पर उपलब्ध हैं। निशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्यक करने हैं। विद्यार्थी जागरूक हो तत्काल अध्ययन किया जा सकता है।

विद्यालयों को एनटी कक्षा-पीपी3+ तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैटेगरी एरिया में निवास करने वाले बालकों को निशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष तक
2	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष तक
3	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष तक
4	First	6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष तक

प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम प्रेम के अनुसार पूरी करनी है:-

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बंधित निजी विद्यालय
2	सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	17 फरवरी 2026 तक	प्रबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	20 फरवरी 2026 से 04 मार्च 2026 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना	06 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	बालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (choice filling)	06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक	अभिभावक द्वारा
6	प्रथम चरण आवंटन (राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय)	13 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
7	दस्तावेज सत्यापन	13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
8	प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण	13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक	सीबीईओ / जिशिश / संयुक्त निदेशक
9	द्वितीय चरण आवंटन (राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय)	27 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
10	दस्तावेज सत्यापन	27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
11	द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण	27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक	सीबीईओ / जिशिश / संयुक्त निदेशक
12	शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण)	13 अप्रैल 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
13	दस्तावेज सत्यापन	13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
14	तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण	13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक	सीबीईओ / जिशिश / संयुक्त निदेशक

अभिभावकों एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा समस्या समाधान हेतु सम्पर्क सूत्र:-
E-MAIL:- ddrtebkn@gmail.com / rajpspnhp@gmail.com (सीताराम जाट) IAS
Help line number:- 0151-2220140 / 0141-2719073 निदेशक
DIPR/C/-2026 प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर